



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 पौष, 1941 (श०)

संख्या- 29 राँची, शुक्रवार,

10 जनवरी, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

शुद्धि पत्र

7 जनवरी, 2020

पत्रांक-06/मुक. (भूदान)-380/2014 (खण्ड संचिका)-65/रा., -- माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा सिविल रीविजन नं०-09/2016 झारखण्ड भूदान कर्मचारी संघ बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-08.11.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में एवं पूर्व में झारखण्ड भूदान यज्ञ अधिनियम, 1949 की धारा - (3) (1) के तहत झारखण्ड भूदान यज्ञ कमिटी के गठन किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-4355, दिनांक-31.10.2019 की प्रथम पंक्ति में उद्धृत “धारा-(3)(1) के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड भूदान यज्ञ कमिटी का गठन किया जाता है” को विलोपित किया जाता है।

शेष कंडिकाएँ, तथ्य एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

ह0/-

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव
